



::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL
EXCISE,



सत्यमेव जयते

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

DIN- 20201064SX00004P1A03

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No. V2/58/RAJ/2020	मूल आदेश सं / O.I.O. No. DC/JAM/ST/27/2019-20	दिनांक/ Date 24.03.2020
---	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-108-2020

आदेश का दिनांक /
Date of Order: **28.10.2020** जारी करने की तारीख /
Date of issue: **28.10.2020**

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित/
Passed by **Shri Gopi Nath, Principal Commissioner (Appeals),
Rajkot**

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central
Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**M/s. Power Tech (Mech) Private Limited, Techno Limited, 311G, K Complex, Khodiyar Colony, Airport
Road, Jamnagar.**

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following
way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा
35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section
86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-


(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट
ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New
Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण
(सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor,
Bhawalali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a)
above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत
निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग,
ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है
तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का
भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित
बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की
शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टै ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule
6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be
accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of
duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the
form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the
place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is
situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के
तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में
संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और
लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/-
रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय
न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना
चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन
आदेश (स्टै ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be
filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall
be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be
accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied
of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is
more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax &
interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in
favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench
of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपीक्षित देय राशि दस करोड़ रूप से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) रोनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) रोनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) **भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) शुल्क अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Power Tech (Mech) Private Limited, Techno Bhavan, 311G, K Complex, Khodiyar Colony, Airport Road, Jamnagar (hereinafter referred to as "appellant") filed appeal No. V2/58/RAJ/2020 against Order in Original No. DC/JAM/ST/27/2019-20, 24.03.2020 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Deputy Commissioner, Central GST and Central Excise Division, Jamnagar - I (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').


2. The brief facts of the case are that the Appellant was engaged in providing various taxable services and was registered with Service Tax. Investigation carried out against the Appellant revealed that they had collected Service Tax from their clients but failed to deposit the same to Government exchequer during the period from 2010-11 to 2014-15. The above investigation culminated into issuance of Show Cause Notice.

2.1 For the subsequent period, the Superintendent, CGSTR-III, Division-I, Jamnagar vide their letters dated 07.09.2017, 09.11.2017, 24.11.2017, 10.01.2018, 24.01.2018 & 04.04.2019 requested the appellant to submit the details viz. Gross receipt as per profit & loss account, Gross receipt as per 26AS, Service Tax charged & collected as per invoices, Service Tax paid, Value of exempted services in respect of F.Y. 2015-16 & 2016-17. The appellant vides their letters dated 03.10.2017, 05.12.2017, 23.03.2018, 30.04.2018, 12.04.2019 & 02.08.2019. After scrutiny of details submitted by the appellant, the appellant was issued a show cause notices under proviso of Section 73(1) of the Finance Act, 1994 amounting to Rs. 27,88,871/- on account of short payment of Service Tax and said SCN was confirmed by adjudicating authority vide impugned order.

3. Aggrieved, the appellant preferred the present appeal on the following grounds, inter alia, contending that:

(i) The impugned order passed by adjudicating authority is ex-facie illegal, totally erroneous perverse and contrary to the facts on record and liable to be set aside.

(ii) There is no short payment of Rs. 27,88,871/- of Service tax as the flat rate on higher side has been considered by adjudicating authority and submission with detailed calculation given by the appellant were not considered while passing the impugned order.



(iii) Accordingly, recovery of interest under Section 75 of the Finance Act 1994, imposition of penalty of Rs. 27,88,871/- under Section 78 of Finance Act, 1994 and imposition of penalty of Rs. 10,000/- for failure to correctly assess the Service Tax Liability and failure to disclose correct details of taxable income under the provision of Section 77(2) of the Finance Act 1994 and penalty for late filing ST-3 Returns for the period from 2015-16 to 2016-17 under Section 70 of the Finance Act, 1994 read with Rule 7C of Service Tax Rules, 1994 shall be set aside.

4. Personal hearing in the matter was attended on virtual mode by Shri Vallabh Sonecha, Chartered Accountant on 29.09.2020, who reiterated the grounds of appeal and requested to consider their grounds of appeal and allow the appeal on merit.


5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order confirming demand of Service Tax to the tune of Rs. 27,88,871/- is correct, legal and proper or not.

6. On going through the records, I find that entire case was made out by comparing gross receipts declared in ST-3 Returns with corresponding details recorded in Form 26-AS, financial accounts etc for the years 2015-16 and 2016-17; that the adjudicating authority arrived for differential service tax by giving findings that the Appellant had not provided month wise details of service tax liability and hence, took higher rate of service tax by resorting to best judgement assessment under Section 72 of the Finance Act, 1994.

7. The Appellant has contended that they have submitted all documents i.e. Service Tax Returns, Audited Financial Accounts, 26AS, all invoices raised by the appellant & Challans which were called for by the adjudicating authority vide their letters dated 07.09.2017, 09.11.2017, 24.11.2017, 10.01.2018, 24.01.2018 & 04.04.2019, but adjudicating authorities have not considered the same and confirmed service tax by taking higher rate of service tax by applying Section 72 of the Service Tax Act, 1994.

8. I find that the issue involved in the present case is in narrow compass. The Adjudicating authority confirmed service tax demand by taking higher rate of service tax in absence of month wise details of service provided made available by the Appellant. I find that the adjudicating authority was justified in resorting to best judgement assessment as provided under Section 72 of the Act. However, if




Page 4 of 6

differential service tax amount is arrived at by adjudicating authority by taking higher rate of service tax as pleaded by the Appellant then in the interest of justice, the Appellant deserves a chance to produce month wise details of service provided by them during the years 2015-16 and 2016-17. I find that the Appellant has not incorporated said details in the Appeal Memorandum. Under the circumstance, I find that this case is required to be remanded to the adjudicating authority for de novo adjudication.

9. Thus, in view of the above, I set aside the impugned order and remand the matter back to the adjudicating authority for correct determination of service tax for the said period with a direction to the Appellant to produce month wise details of service provided by them during the said period and any other information as called upon by the adjudicating authority within two months from receipt of this order. The adjudicating authority is directed to determine correct service tax liability after taking into consideration the submissions of the appellant and after affording reasonable and fair opportunities of personal hearing to the appellant and to pass reasoned and speaking order in accordance with Law.

10. I set aside the impugned order and allow the appeal by way of remand.

११. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

11. The appeal filed by the appellant is disposed off in above terms.

सत्यापित
shilp
संजय शेट्टी
अधीक्षक (अपील्स)

(GOPI NATH) 28/10/2020
Principal Commissioner (Appeals)

By RPAD

M/s. Power Tech (Mech) Private Limited, Techno Bhavan, 311G, K Complex, Khodiyar Colony, Airport Road, Jamnagar	मे पावर टेक (मिक) प्रा ली टेकनों भवन, ३११ जी, के कॉम्प्लेक्स, खोडियार कॉलोनी, एयर पोर्ट रोड, Jaamnagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



प्रति:-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जामनगर १ मण्डल, जामनगर, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

